


(37)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]
No. 176]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2009/माघ 3, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2009/MAGHA 3, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय-I)

अधिसूचना

मुम्बई, 24 नवम्बर, 2008

सं. 02/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 286(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खण्ड (9) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94-सीमा-शुल्क (गै.टै.) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, 100 प्रतिशत निर्यात-मुख्य भाण्डागार इकाई को स्थापित करने के लिए जैसा कि भारत सरकार ने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र के थाने जिला के तालुका-वाडा में 'ग्राम-वसूरी खुर्द' को सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत भाण्डागार स्टेशन घोषित करता हूँ।

[फा. सं. VIII/बीडीके/पीबीडब्ल्यू/ब्ल्यू ई स्टार/40-03/08]

महेन्द्र सिंह, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
CENTRAL EXCISE-I)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2008

No. 02/2008-Cus. (N.T.)

S.O. 286(E).—In exercise of the powers conferred on me by Notification No. 33/94-CUS (N.T.) dated, 1st July, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, issued under Clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I, hereby declare the area 'Village-Vasuri Khurd'. In Taluka-Wada of Thane District in the State of Maharashtra, to be notified as Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up 100 % Export Oriented Units as approved by the Government of India.

[F. No. VIII/BDK/PBW/Blue Star/40-03/08]

MAHENDER SINGH, Commissioner